



RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रीयनसथी साथी • गेरयिन्पो सात्थी • रून्सथी साथी • रेहनबो साथी

RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रीयनसथी साथी • गेरयिन्पो सात्थी • रून्सथी साथी • रेहनबो साथी

Corona Special

# RAINBOW SATHI

## रेनबो साथी

### मदद का हाथ

कोरोना के कारण  
उपजे संकट से जूझते  
परिवारों तक उम्मीद की  
किरण के रूप में पहुंचा  
रेनबो होमस



### Helping Hands

RAINBOW HOMES REACH OUT  
TO FAMILIES OF ITS CHILDREN  
STRUGGLING FROM CRISIS DUE  
TO CORONA PANDEMIC



# TEAM Work

Year 3, Issue 17  
Corona Special

EDITOR IN CHIEF  
**BHASHA SINGH**

## ADVISORY BOARD

T.M. KRISHNA  
K. LALITHA,

GEETA RAMASWAMY  
K. ANURADHA

## EDITORIAL BOARD

CHANDA  
(DELHI)



SAHITYA  
(HYDERABAD)



SHIVAM  
(PATNA)



S KUMAR  
(HYDERABAD)



AMBIKA, DEEPTI  
BEZWADA WILSON

SUMMI MUNIR, DELHI



DEEPAK AMAN, DELHI



SABITHA, HYDERABAD



A KUMAR, HYDERABAD



NAGA LAXMI, HYDERABAD



BHAVANI, CHENNAI



ARUN KUMAR, PATNA



CHAMPA KUMARI, PATNA



SOMNATH CHAUHAN, PUNE



## CHILD JOURNALIST

SAVITRI, BANGALORE



KEERTHANA, BANGALORE



SUBHASHREE, KOLKATA



KABITA, KOLKATA



RIYAZ ANSARI, PATNA



CHANDA KUMARI, PATNA



AMITA KUMARI, PATNA



ASHA KUMARI, PATNA



SHERNISHA, CHENNAI



## CITIZEN JOURNALIST

ARTI SINGHASAN, DELHI

DIVYA, HYDERABAD

CHAKRAVARTHY KUNTOLLA, HYDERABAD

PRIYADHARSHINI, CHENNAI

JOYTI KUMARI, PATNA

AMRUTA, BANGALORE

KANCHAN PASWAN, KOLKATA

## SUPPORT TEAM

PRISCELLA  
KOLKATA

SRILATHA MORAMPUDI  
PUNE

NANKI  
DELHI

SHADAN  
PATNA

KRANTHI  
HYDERABAD

SIVAGAMI  
NATARAJAN  
CHENNAI

BABU S  
HYDERABAD

SAKSHI TIWARI  
HYDERABAD

Design:  
**ROHIT KUMAR RAI**

## Editor's Column

# हम बोलें दुनिया सुने...

### दोस्तो

हमारे आपके लिए सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़ी राहत इस बात की होती है कि जब हम संकट में फंसे हों, बुरी तरह से घिरे हुए हों, उस समय हमारे दोस्त या शुभचिंतक हमारी मदद के लिए सामने आये। कोरोना काल भी ऐसी ही परीक्षा की घड़ी है मानवता के लिए। इसमें हमला कई तरफ से हुआ- सबसे पहले तो बीमारी का डर, फिर सुरक्षित परिवेश में खुद को व अपनों को रखने की चुनौती और सबसे बड़ी आपदा से लड़ने के लिए रेनबो होम्स ने जिस तरह से मिलकर काम किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा रहा, वह निश्चित तौर पर बेमिसाल है। हमने आगे बढ़कर सर्वे किया। इसके जरिये यह जानने की कोशिश की कि रेनबो होम्स का जो व्यापक पारिवारिक दायरा है, हमारे बच्चों के जो परिजन हैं, उनकी क्या स्थिति है। उनके कष्ट, उनके संकटों से सीधे हमने अपना कनेक्शन जोड़ा। यह हमारे लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था। इसमें हम सब एक परिवार की तरह, एक दोस्ताना नेटवर्क की तरह लगे रहे।

इस कोशिश ने रेनबो होम्स में रहने वाले बच्चों से लेकर उनके परिजनों तक के भीतर आशा का संचार किया। उन्हें लगा कि कोई है, जो निस्वार्थ

हंग से बिना किसी भी तरह का भेदभाव किए, बिना कोई शर्तें लगाए उनकी मदद करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है। कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी तमाम गरीब लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए दो वक्त के भोजन का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। रेनबो होम्स में रहने वाले बच्चों के लिए भी यह भीषण दुविधा का दौर था। उनके पास तो भोजन था, सुरक्षा थी, लेकिन बाहर उनके परिजनों के लिए भोजन का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। चूंकि हमने पहले से बच्चों के अभिभावकों के साथ जीवंत जुड़ाव स्थापित करने के कई प्रयास किए थे, लिहाजा हमने इस संकट को तुरंत भांप लिया और, मदद का हाथ बढ़ाया। खुद हमारी टीम ने परिजनों को इस संकट से उबारने में मदद का बीड़ा उठाया, उनके घरों तक राशन पहुंचाया। कहने की जरूरत नहीं, इसमें बच्चों ने जमकर शिरकत की। पूरी रेनबो होम्स टीम ने कोरोना संकट में मानवता की रक्षा के लिए अपने इर्द-गिर्द नेकी बांटी।

यह बढ़ा हुआ हाथ, बस एक ही संकेत दे रहा है—गम हो या खुशी—हम सब साथ हैं। एक दूसरे का हाथ थामे हम मजबूती से खड़े होकर हर संकट का सामना कर सकते हैं, कर रहे हैं।

**हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे !!!**

well as their families. They felt that there is someone who is coming to their help without any prejudice, conditions or discrimination.

During lockdown because of COVID-19, for most of the poor and homeless people it had become

extremely difficult to even get two proper meals a day. For children at Rainbow Homes, it was another emotional crisis, as while they themselves were safe and provided for all the necessities, their families were in state of despair. Since, we already had done many efforts to remain connected to parents, we could feel the situation and tried to reach with help at the earliest. Our whole team, including the children themselves came forward for the mission.

These helping hands say us just one thing—whether in distress or in happiness—we all are together. We are fighting every battle together and will keep doing so.

**WE SHALL FIGHT, WE SHALL WIN!!!**

*Signature*

## We speak world listens

### Friends

In any moment of crisis, when we are surrounded by a hopeless situation, we get relieved the most when we come to know that there is someone who is coming with soe help. The time of the Corona pandemic was a similar test for our humanity this time. It was a fight on many fronts for the common man. There was the fear of infection, then was to keep oneself and all near ones safe and lastly to survive while fighting with hunger and poverty. The way Rainbow Homes came forward to lend a helping hand and to fight together in this tough time was remarkable. We did a sample survey so that we can ascertain the actual conditions and needs of our extended network, the families of our children. We tried to connect to their misery and pain. We all worked together as a family in this effort.

This exercise created a hope among children as

## Ranchi



## Survey helped in bonding with the families

A rapid assessment study of COVID -19 impact was conducted by the team members of the homes. The survey was to be conducted through telephone calls. It was a new experiment for all of us and had hesitation about quality data / information collection. It was also assumed that many respondents may not understand questions, or they might not have time or interest in answering questions. But then, there was no other option to get related data/ information.

Hence, our team planned to conduct survey. Firstly, a sample survey was conducted with 3-4 parents and accordingly process and timings for the main survey were fixed. At various points we kept sharing and discussing survey experiences so that emerging problems can be sorted out on the go and we collect some qualitative information.

Almost all parents gave sufficient time for answering questions. Few parents were initially irked of so many questions but still they were encouraged and engaged. Maximum respondents were female, and they answered patiently. Besides

keeping the recorded audio of each conversation, all responses were entered in hard copy format as well. That helped in compilation of the findings. Entire records were uploaded on a Google sheet. That all formed the basis of required feedback.

We found out in the survey that entire community was in panic due to food crisis and losing jobs. They were scared of infection as their lived in hygienically poor conditions. In the early days of lockdown Government, social organizations and civil society, initiated distribution of cooked food & dry ration to people residing in slum areas, migrant workers and other vulnerable communities. But most of it was not enough for even a week. In these circumstances Rainbow Homes provided dry ration to the families of children residing in

Homes. The quantity of rice, wheat, potatoes, onion and other items were sufficient enough for more than a month. It also included toiletries and other essential items of daily need. This had a very positive response from the community. It soothed their nerves. Homes team also tried to clear many fear and apprehensions about the COVID-19 situation.

The whole exercise also helped home team in strengthening sharing, trust and bonding with families.

**Champa Tigga, SPM, Ranchi**



### अभिभावकों की बातें

#### परिवार जैसी है रेनबो होम टीम

मैं खिलखिलाहट रेनबो होम में रहने वाली स्त्री व झुन्नी की मौसरी बहन हूँ। रेनबो होम ने हमारे बच्चों के साथ-साथ घरों में भी काफी बदलाव किया है। बच्चों को यहाँ हमेशा बहुत प्यार मिलता रहा है। कोरोना महामारी के कारण मोदी सरकार द्वारा अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया और सड़कों पर रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया। एकाध बार जनधन खाते में बेशक 500 रुपये डल गए। जो सरकारी राशन मिला वो खाने लायक



#### पिंकी देवी, पटना


न था। कामकाज बंद हो गए थे। छोटे से घर में 10-12 लोगों को बंद रहना होता था। ऐसे खराब हाल में रेनबो होम की टीम ने हमें दो-दो बार राशन दिया जो महीने भर के लिए पूरा था। इसमें रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान था। राशन देने के अलावा टीम लगातार संपर्क करके हमारे हालचाल भी लेती रही। इस तरह हमारी हर तकलीफ में वे हमारे साथ रहते हैं। हमारी बातें सुनते हैं और जरूरी कागजात बनवाने में भी मदद कर देते हैं। सरकारी कामकाज में भी दफ्तरों में मुलाकात करने में हमें हिम्मत देते हैं। वे लोग हमें अपने परिवार का हिस्सा लगते हैं।

## RAINBOW TEAM is like family to us

I am cousin of Runni and Jhunni from Khilkhilahat Rainbow Home. Our lives have changed ever since our children came to the Rainbow Home. They get a lot of care and affection here and we feel very happy for that. Due to the Covid-19 pandemic, when lockdown was imposed, poor and homeless people like us were left in precarious condition. We just received 500 Rs couple of times in our Jan-dhan

accounts. Government ration was very less and poor in quality. There was no work for anyone and 10-12 people had to remain closed in small rooms. Where could be social distancing? In such crisis, we were helped by the Rainbow Homes team. They distributed ration for two months. It included things for all daily necessities. Besides they kept in touch with us to know if we had any problem. They listen to us and help us in getting all the essential documents. They also support us when we have to meet any government official. They are now like family to us.

# Survey, Agony and Intervention



## IMPACTS OF COVID ON FAMILIES

### Findings at a glance!

**81%** families lost income; 50 percent either took loan or sold personal belongings for cash

**58%** families reported of having savings for only 7-14 days

**79%** families staying in rented accommodations could not pay rents for 2 month; 45 percent had good chance of being evicted on failing to pay rents.

**48%** families accessed unsafe toilet and 62 percent fetched unsafe drinking water

**29%** families spending money on drinking water and 12 percent accessing pay-and-use toilets experienced additional

financial burdens.

**70%** families with long term illnesses had medicines only for a month.

**46%** families had only two meals a day; 7 percent had one meal a day and 19 percent starved for two days or more during lock down.

**9%** women experienced emotional or physical abuse or both, majorly by their spouses.

**51%** families were worried that they would not get back jobs.

**64%** families expects rations or food assistance.

survive through the crisis.

80 percent of the families living in rented accommodation expressed their inability to pay rent for two months. With uncertainty to get back jobs or work, rest of the families in rented accommodations are at risks of being evicted, thus might be vulnerable to experience homelessness gradually. Due to loss of income, families who need to bear tall financial expenses for utilization of toilet, bathing, and accessing drinking water are compromising on health either by accessing water at free of cost from unrestricted sources or defecating open. Handwashing or

*"I need to pay rent for 2 months to my landlord who keeps asking for rent this time also. I need money to pay rent or I will be evicted."*  
- a single breadwinner in Chennai

maintaining cleanliness, using hand sanitizers seem luxury for these families whose biggest worry has been about dying of hunger! Families with existing long-term chronic illnesses, particularly older people and children are the hardest hit by the economic impact of this pandemic. Many of the families surveyed who had medicines in stock for 14 -30 days during initial period of lock down might have run out of their medicines and are unable to buy without work or cash in hands.

Food insecurity is continual source of



security, housing and living condition, hygiene and sanitation facilities, economic distress and unemployment, fear of uncertainty, hunger etc., a need assessment exercise became necessary. A representative sample of 20 percent of the families of children under the aegis of Rainbow Homes Program, that is, 670 families across 10 cities selected for a rapid telephonic survey using a questionnaire consisting of semi structured, structured as well as open ended questions. The interviews were intentionally designed as free flowing telephonic conversations without making it sound like reading a questionnaire or checklist during interviews so that families get space to talk spontaneously and relevant information come out. Survey questions captured the details from sample families on aspects such as, i) awareness on COVID; ii) conditions on housing; water and sanitation; iii) health conditions; iv) availability of identification documents; v) occupations and income; vi) food & other emergency relief received; vii) hunger and starvation; viii) abuse incidences and ix) concerns, expectations and hopes of families in the context of COVID. The survey administered with the help of a group of volunteers and home team who underwent a series of training on questions and process of uploading information on digital platform.

Majority of the families reported being disturbed or worried because of the uncertainties unveiled since lockdown. Some families were partially benefitted with relief measures by government, corporates and neighbourhood communities whereas, some had to complete rely on Rainbow's assistance to

With the whole world reeling under the current pandemic caused by Novel Coronavirus (SARS CoV-2) and the disease that it spreads – Covid-19, the worst hit has been the already vulnerable groups of population, such as, homeless and impoverished. Nationwide lockdown to curb spread of the disease and subsequent extension on social distancing, travel bans, closer of markets and industries affected migrant workers disproportionately who found themselves stranded, unable to return either to their places of work or their communities of origin

At this juncture, the challenge was to reduce the adverse effects on the families of children of Rainbow Homes/Sneh Ghars, who are mostly homeless or underprivileged. They were deprived of the PDS supplies or other provisional supports from government. To have deeper understanding of impact of COVID crisis on families in terms of food



*I don't know the number of days we have gone without food but sometimes we gave available food to the kids, while me and my husband do not eat”*

– a mother in Delhi

concern and worry as it heightens malnutrition among children and lack of essential nutrition among adults. 88 percent of families who reported having rations in stock for a month would cut their meals from thrice to twice a day, twice to once a day and then might skip meals in coming months.

Pandemic might cause significant impact on mental health of the families, especially among single mother, attributing to the factors such as, housing instability, chronic stress, heightened domestic violence etc. Families who could not earn and went into increased debt traps by borrowing money might report higher rates of negative mental health impacts in the long-run. Survey found that with no work, men in the families increased consumption of alcohol on the pretext of frustration and stress leading to domestic violence.

Overall, It can be presumed that the lack of proper food and nutrition, loss of income, lack of access to health and medication, increasing mental health related concerns, increasing domestic violence and abuse could only lead to larger long term complications that could very well set back the “growth” in these families by a few decades. Children living with these families are the worst hit because overcrowding in substandard housing, prolonged food insecurity would have direct and indirect effects on their holistic growth. Hence, there is a need to use this opportunity to improve the socio-economic conditions of these communities on a long-term basis and not just provide relief measures as an immediate/short term response. Both government and civil society organizations need to coordinate and combine their efforts towards this important goal.

**Dolon Bhattacharyya**  
Manager-Research,



## सर्वे, हताशा और दरखल

कोरोना महामारी के कारण इस समय पूरी दुनिया बेहाल है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में आबादी के सबसे कमजोर व हाशिये के तबके के लोग हैं- इनमें बेघर, गरीब सबसे ज्यादा हैं। बीमारी को रोकने के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए गए, आने-जाने पर पाबंदियां लगीं, बाजार बंद हुए और उद्योगों पर असर पड़ा उनका असर अनुपात से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों पर पड़ा जिनमें से कई न तो अपनी काम की जगहों पर रुक सके और न ही अपने मूल गांवों को लौट सके।

ऐसे हालात में, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी



कि इस स्थिति के प्रतिकूल प्रभावों से रेनबो होम व स्नेह घरों में रहने वाले बच्चों और उनके परिवारों को कैसे बचाया जाए क्योंकि वे ज्यादातर बेघर व गरीब परिवारों से आते हैं। वे सरकारों की तरफ से पीडीएस आपूर्ति या अन्य किसी मदद से भी वंचित कर दिए गए थे। ऐसे में इन परिवारों पर खाद्य सुरक्षा, आवास, जीवन की स्थितियों, सफाई व स्वच्छता सुविधाओं, आर्थिक तंगी व बेरोजगारी, अनिश्चयता के भय और भुखमरी के असर के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करना जरूरी हो गया था। इसके लिए रेनबो होम प्रोग्राम के तहत आने वाले बच्चों के परिवारों में से 20 फीसदी का एक प्रतिनिधि सैंपल तैयार किया गया। इस तरह इसमें कुल दस शहरों में 670 परिवार इस दायरे में लिए गए और उनसे टेलीफोन पर सर्वे किया गया और जानकारी ली गई। प्रश्नावली में पहले से तय सवालों के अलावा खुले सवाल भी रखे गए। लेकिन परिवारों से बातचीत को जानबूझकर इस तरह से तैयार किया गया था कि वह एक सहज-सामान्य बातचीत लगे कोई पूछताछ वाली



प्रश्नावली नहीं, ताकि परिवार सहजता से बात कर सकें और हमारे पास सारी प्रासंगिक जानकारी भी आ जाए। सैंपल में शामिल परिवारों से जो विभिन्न जानकारी ली गई वे- कोविड को लेकर जागरूकता, आवास की स्थिति, साफ-सफाई, स्वास्थ्य स्थितियां, पहचान के दस्तावेजों की उपलब्धता, काम व आय, भोजन व अन्य आपात राहत की उपलब्धता, भूख के हालात, शोषण की घटनाओं और आशंकाओं व अपेक्षाओं को लेकर थीं। सर्वे का काम कई वालंटियर्स व होम की टीम ने मिलकर किया जिन्हें पहले सवालों और सारी प्रक्रिया को डिजिटली अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था।

ज्यादातर परिवार अनिश्चितता की वजह से परेशान व चिंतित थे। कुछ ही परिवार थे जिन्हें सरकार, निजी संस्थाओं और आस-पड़ोस से किसी तरह की मदद मिली थी। बाकी सभी परिवार संकट से जूझने के लिए रेनबो होम से मिलने वाली मदद पर ही पूरी तरह निर्भर थे।

महामारी परिवारों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है, खास तौर पर अकेली माओं की स्थिति पर। उन्हें निवास की अनिश्चितता, निरंतर तनाव और बढ़ी हुई घरेलू हिंसा से जूझना पड़ता है। यह असर उन परिवारों पर और भी बढ़ जाता है जिनके पास आय का जरिया नहीं होता और जिन्हें घर चलाने के लिए लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। सर्वे से यह भी सामने आया कि कोई रोजगार न होने के कारण परिवारों में आदमियों में शराब पीने की लत बढ़ गई और इसकी परिणति बढ़ी घरेलू हिंसा के रूप में भी हुई।

कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि उपयुक्त भोजन व पोषण का अभाव, आय का हर्जा, स्वास्थ्य सुविधाओं व दवाइयों की अनुपलब्धता, मानसिक सेहत से जुड़े मसलों की जटिलता, बढ़ता घरेलू शोषण व हिंसा- ये सब बड़ी, दीर्घकालीन जटिलताओं को ही पैदा करते हैं, जिसकी नतीजा इन परिवारों की प्रगति में आने वाले कई सालों के लिए अड़ंगा लग जाने के रूप में होता है। ऐसे परिवारों में रहने वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस मौके का इस्तेमाल इन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को दीर्घकालीन आधार पर सुधारने में किया जाए। उन्हें केवल तात्कालिक राहत देकर जिम्मेदारी से छुट्टी न पा ली जाए। यही सरकारों और सामाजिक संस्थाओं के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है।

Delhi

न पढ़ाई छोड़ी और न ही काम



चंदा, 19 वर्ष, दिल्ली

मैं पार्ट टाइम नौकरी करने के साथ-साथ कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी कर रही हूँ। मुझे उन्नति हॉस्टल में रहते हुए चार साल हो गए हैं। मैं साल भर से एक नशामुक्ति केंद्र में काम करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी नौकरी व पढ़ाई, दोनों जारी रखे। पहले तो मैंने डर के मारे नौकरी छोड़ने का ख्याल किया, लेकिन फिर हमारी कॉर्डिनेटर सुनीता दी ने समझाया कि जहां

मैं काम करती हूँ, वहां के बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन में मुझे कई बार ऑफिस से पैदल घर लौटना पड़ता था, जिसमें डेढ़ घंटा लग जाता था। कई बार मैं थककर हार मान लेती थी तो कभी मेरे साथी हौसला बढ़ाते तो कभी ननकी दी मेरी काउंसलिंग करती। यहां हॉस्टल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई गई ताकि उसमें मैं पीछे न रह जाऊँ। फिर मैं चार-चार दिन काम की जगह पर ही रुककर हॉस्टल लौटती थी। मुझे सारी सावधानियां बरतनी पड़ती थीं और चार दिन जब हॉस्टल आती थी तो अच्छे से सैनेटाइज करती। पहली बार चार दिन के लिए सेंटर में रुकी थी तो खाने-पीने-सोने की बहुत दिक्कत हुई थी। फिर सुनीता दी ने सारे इंतजाम किए। इधर कुछ दिन बाद परीक्षाएं भी शुरू

हो गईं। कुछ हॉस्टल की मदद से और कुछ अपनी कोशिश से मैं अच्छे से परीक्षाएं दे सकी। उधर सेंटर में भी बच्चों की टीचर नहीं आ रही थी तो मैंने बच्चों की क्लास ली, काउंसलिंग की, उनके साथ समय बिताया ताकि उन्हें अकेलापन न महसूस हो। मुझे हर कदम पर सबका साथ व सहयोग मिला जिससे मैं इन सारी कोशिशों में कामयाब रही।

Kept on Working as well as my studies

I am studying in 2nd year college as well as doing a part-time job. I have been staying in Unnati hostel for four years now. Since last one year, I am also working with a deaddiction centre. I kept doing both the things- job as well as studies. Initially, it came to my mind that I should leave my job. But then, my coordinator Sunita Di said to me that the kids at the centre also need my support. I should not leave them. On many occasions, I had to walk to my office for more than an hour because I couldn't get any transport during lockdown. Then I used to stay at centre for four days at stretch. After such stays, when I used to come back to the hostel, I was properly sanitised. Meanwhile, I also kept my online classes. Fortunately, I got support from everyone.

Friends of Rainbow Sathi

Respected Editor, Greetings

I have gone through the Corona Special Issue of "Rainbow Sathi". I liked its cover page, which was conveying a good message.

"We are all in this together. So please stay home and help to break the chain." Also, "We are alert. We are together and we will move forward together."

I would like to appreciate endeavours of Rainbow Home for arranging essential things for the poor family in this tough



Royal Valmiki Class 6th, New Delhi

time of corona crisis. It is an admirable response to the pandemic.

मैंने रेनबो साथी का कोरोना स्पेशल अंक पढ़ा। मुझे इसका कवर पेज बहुत पसंद आया क्योंकि उससे काफी अच्छा संदेश मिल रहा था। इस मुश्किल वक्त में हम सब लोग साथ हैं, इसलिए बिना जरूरत बाहर न निकलें और बीमारी की कड़ी को तोड़ने में मदद दें। साथ ही, हम सब जागरूक हैं और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।

मैं कोरोना के संकट की इस मुश्किल घड़ी में गरीब लोगों के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराने के रेनबो होम टीम के प्रयासों की भी काफी सराहना करता हूँ। महामारी के समय में यह काफी अहम कदम है।

कोरोना जंग

हाय! कोरोना तुमने ये क्या कर डाला लौटा पूछे ये कैसे पड़ा जाला दुनिया की तुमने इस कदर है खंगाला पूपी दुनिया वैक्सीन की जग रही माला

डबल-एच.ओ.ने बतलाया महामारी जिससे लैन्डिङ्ग की भी आई बारी अगेको की मौत के घाट उतारी हम न हारेगें ये जिद्द है हमारी

दी शप्प की दूरी रखेंगे बस्करार छात्राएँ लगा रहे अपनी शुहार खड़े-खड़े फैसले ले रही सरकार वैक्सीन का है सबको इंतजार

बिहार कह रहे नींबू पानी तुम पीना कोसकता कह रहे मारक लगाना आंध्र प्रदेश का आदेश हर बार हाथ है धोना बाकिशों का कहना कि घर पर ही रहना


क्वैरंटाईन के बक्ले क्वाए कोरोना जाँच कोरेबा गौइयाओं का मिला है इतना साथ जब एक साथ जुड़ेगे हमारे ये गाँठ इस वायरस की भी देंगे अरुंर हम मात।



अमिता कुमारी 7वीं, 12 वर्ष, खिलखिलाहट अमन रेनबो होम पटना



N. Nagesh 6th STD Aman Vedika Sneh Ghar Boys Home, Vijaya Nagar Colony, Hyderabad



Mohammad Harif 14 Years, 9th STD Aman Vedika Sneh Ghar, Vijayanagar Colony, Hyderabad

## Quarantine experiences of young adults from Chennai

### अमुथा ने क्वारंटाइन में मनाया जन्मदिन

अमुथा पहले रेनबो होम्स में रहती थी लेकिन फिर पढ़ाई के लिए वह तिरुप्पुर चली गई थी। लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल में रहने वाले सारे बच्चे अपने घरों को चले गए। वह अकेली रह गई। तब रेनबो होम्स की स्टेट टीम ने उसे चेन्नई लाने के लिए ट्रेवल पास हासिल करने की भरसक कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। एक कार में उसे वापस बुलाया गया। लौटने के बाद उसे 15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ा। उसने



अपना जन्मदिन भी क्वारंटाइन में ही मनाया। बहरहाल, चूंकि वह फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी तो उसने रेनबो होम्स में बच्चों को अपने मास्क खुद बनाना भी सिखाया।

### Amutha celebrated birthday in quarantine

My name is Amutha. I lived in ARUN Rainbow Home. I moved to Tiruppur (another district in Tamil Nadu) for my education. Everyone living with me in the hostel went to their homes due to the

lockdown. I was alone there. I felt bad about it. From there, somehow, I came back to the home (Rainbow Home). I was quarantined for 15 days at the home. I spent my birthday in quarantine and felt really bad. I missed going out, being with friends and going to college. I study fashion designing and hence I taught other children in Rainbow Homes to stitch their own masks. I always wear a mask wherever I go.

Amutha, like she recounted was in Tiruppur. The state and home team had to get permissions from multiple authorities to get a travel pass for her. After much persuasion, the state team finally got a travel pass, arranged a car and bought Amutha to the home. This was a special intervention made by the state team in April 2020.

infected children in isolation at the Rainbow Homes. Even though she was infected, she faced the challenge bravely and chose to provide support to other infected children at the home by guiding them on do's and don'ts.

### धनलक्ष्मी ने हिम्मत से लड़ी इन्फेक्शन से लड़ाई

धनलक्ष्मी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। वह रेनबो होम में ही थी जब इस बीमारी का दौर शुरू हुआ। होम में सारे बच्चों का टेस्ट हुआ। उसमें धनलक्ष्मी पॉजिटिव निकली और उसे 15 दिन के लिए सरकारी केंद्र पर आइसोलेशन में रखा गया। वह बिलकुल ठीक होकर लौट आई। उसने हिम्मत से काम लिया और लौटने के बाद उसने बाकी बच्चों को बताया कि क्या-क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। उसके अनुभव के आधार पर ही होम में भी बच्चों की डाइट तैयार की गई और उन बच्चों की भी देखरेख की गई जो होम के भीतर ही आइसोलेशन में थे।

same. I started reading the newspaper to find out more about covid-19.

Dhanalakshmi was the first young adult in Rainbow Homes to be isolated in a government isolation centre. She provided advice on what diet was being given to her at the centre, based on which, similar diet was provided to other



### Dhanalakshmi fought the infection bravely

My name is Dhanalakshmi. I study in first year of college. I came to know of covid-19 when I was at Rainbow Home. I learnt about its symptoms and preventive measures. All children in the home were tested for covid-19. I was detected positive and was isolated. I was very sad because of this. I was isolated for 15 days. After completing isolation, I was welcomed back to the home. Everyone celebrated. I was very happy to meet them after a long time. After that, I started taking proper care of myself and helped my friends do the

### Patna



**Champa Kumari**  
10th std

Gharaunda Rainbow Home,  
Anisabaad, Patna

### आसान नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई

मेरा सपना था कि 10वीं क्लास में स्कूल जाकर और कोचिंग करके अच्छी तैयारी करूंगी ताकि अच्छे नंबर से पास हो सकूँ। लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। ऑनलाइन क्लास में ही हम लोगों का सेलेबस पूरा कराया जा रहा है। स्कूलों में होने वाली सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में काफी कठिनाई होती है जैसे बिजली न होना नेटवर्क की समस्या और स्मार्टफोन की अनुपलब्धता। हालांकि ऑनलाइन क्लास करने से समय की भी बचत होती है। स्कूल जाने पर अक्सर सरकारी स्कूल में विषय पीरियड में कभी टीचर नहीं आते हैं। तब भी बच्चों को स्कूल में ही रुकना पड़ता है। होम में कोविड से बचने के लिए सारे उपाय के गए हैं। सुबह-शाम हम बच्चों का बुखार मापा जाता है। सब लोग शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखते हैं। लॉकडाउन में आय व नौकरी के संकट के बाद रेनबो होम टीम ने हमारे परिवारों को महीने भर का राशन भी दिया।

### Online classes are not at all easy

I dreamt that in the 10th class, I will go to school and coaching to prepare myself well for the good numbers. But it was not possible due to COVID-19. Now we have to finish our syllabus in the online classes. All school activities are also done online. But online classes aren't so easy. There are many problems like no electricity or network or availability of a smartphone. Online classes sometimes also save time, though. In many government schools, teachers don't come to class, but still students have to stay in school doing nothing. Rainbow Homes have taken many steps to save children from any infection. We undergo daily checkups and also maintain proper distancing.

## Patna

## स्कूल व दोस्तों की याद आती है

Rachna  
9th stdKhilkhilahat Aman  
Rainbow Home, Patna

इस महामारी ने कई लोगों की जान ले ली है तो कई लोगों को बेरोजगार व बेसहारा छोड़ दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ा है। कोविड-19 के कारण हमारे स्कूल बंद हो गए हैं और हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो अपने स्कूल व दोस्तों की भी कमी अखरती है। हमें होम की सारी टीम से बी शारीरिक दूरी बनाकर रकनी पड़ती है। इससे भी कई बार अकेलापन महसूस होने लगता है। अपने आपको व्यस्त रखने के लिए हम ऑनलाइन क्लास का सहारा लेते हैं। लॉकडाउन के बावजूद हम कई सारी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इससे हम खुश रहते हैं और उत्साह बना रहता है। लॉकडाउन के कारण हमारे भी परिवारों में कई लोगों का रोजगार छिन गया और आय न होने के कारण घरों में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रेनबो होम की टीम ने हमारे परिवारों को राशन किट, कंबल व रोजमर्रा की बाकी चीजें उपलब्ध कराई।

पहले कभी हैंडवाश  
का इस्तेमाल नहीं किया

जब देशभर में लॉकडाउन लगा तो पार्वती देवी के सारे कामकाज रुक गए। तब उन्हें रेनबो होम की टीम ने राशन उपलब्ध कराया। वह उनके लिए परिवार को चलाने में काफी मददगार साबित हुआ। उन्हें पुनपुन में उनके घर के नजदीक ही यह राशन उपलब्ध कराया गया। राशन में आटा, चावल, तेल, मसाले, सत्तू, आलू, प्याज व रोजमर्रा की बाकी चीजें शामिल थीं। यह सारा सामान पाकर वह काफी खुश थीं। उन्होंने कहा, चूंकि पहले कभी हैंडवाश का इस्तेमाल नहीं किया था। हम तो हमेशा साबुन या डिटर्जेंट से ही हाथ धोते थे। यह सारी मदद बड़े मौके से मिली। मैं बिना किसी चिंता के बच्चों को भरपेट खाना दे सकूंगी। जे उन्होंने रेनबो होम टीम का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर खुशी जताई कि बच्चे ऐसी सुरक्षित जगह पर हैं।

Never used a liquid  
hand wash before


Guardian Parvati Devi had all her work stopped when lockdown was imposed in the whole country. Then she was provided ration through Rainbow Home team. She found it very useful to run her family. She was provided with the ration at Punpun near her home. Ration included flour, rice, oil, spices, sattu, potatoes, onions and toiletries. She was very happy to receive all this. She said, "we never used liquid handwash soap. We would always use a soap or a detergent. This help has been very timely, as it would help me in feeding my children without any worry. I can give them a full meal." She was very grateful to Rainbow Home team as well as also happy that her kid is at such a safe and caring place.



पार्वती देवी, पटना, घरोंदा रेनबो होम टीम

## We miss our schools and friends

This pandemic has taken many lives and left many people jobless. All this has affected poor people the most. Due to the COVID-19 our school have been closed and we are unable to study properly. We miss our schools and friends a lot. We have to maintain proper physical distance from our sisters, mothers and other team members. Sometimes we feel lonely because of this. To keep ourselves busy, online classes are conducted. We also remain involved in various activities even during lockdown. This keeps us motivated and happy. During lockdown many of our family members lost their livelihood. Rainbow Homes has provided our families with ration kits, blankets and other necessary items of daily need. This was very encouraging.



## उम्मीद से ज्यादा मिली मदद

जब संगीता देवी के पास फोन आया और उन्हें घरोंदा विकासनाथ रेनबो होम आकर राशन ले जाने को कहा तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने तो यही सोचा कि जिस तरह से बाकी सभी लोग दे रहे हैं, उसी तरह से दो-चार किलो राशन मिल जाएगा। लेकिन जब रेनबो होम की टीम राशन देने उनके घर आ गई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें तो यह यकीनही नहीं हुआ कि वह सारा राशन उन्हीं के लिए था। वह काफी खुस थी और संतुष्ट भी कि अब वे बच्चों को ढंग से खाना खिला सकेंगी। संगीता का काम रुक गया था क्योंकि वह कूड़ा उठाती थी और लोग इंफेक्शन के डर से उन्हें घर नहीं आने दे रहे थे। जिस दुकान को वह कूड़ा बेचती थी, वह भी कोरोना के कारण बंद हो गई थी। इन सारी वजहों से वह काफी परेशान थीं लेकिन उन्हें रेनबो होम से उम्मीद से ज्यादा मदद मिल गई। वह खुश थीं कि उनकी बच्ची ऐसी जगह पर रहकर पढ़ाई कर रही है।

## More than what expected

When Sangeeta Devi's phone rang to ask her to come and collect ration from Gharaunda Vikasnath Rainbow Home, she was not sure what she would be getting. She thought that just 2-4 kilos of ration is what she will get, just as everyone else was giving. Then the Rainbow team came to her house to provide her the ration, then she had tears of joy in her eyes. She couldn't believe that all that ration was for her. She was very happy and relieved that now she would be able to feed her children properly. Sangeeta was now not able to go on her work of collecting garbage as the residents don't let her in because of the fear of COVID. Even the shop, where she used to sell the garbage was closed due to pandemic. Due to all this she was quite worried, but the help from Rainbow Home was more than expected. She was happy and relieved that her daughter was living with such a team.



संगीता देवी, पटना



# When All Joined Hands To Help Others

Coronavirus pandemic and resultant lockdown imposed on the nation had a very catastrophic effect on most of the people, specially those from the marginalised sections. Jobs and all means of income were lost. Incidentally, all our children belong to such families. Rainbow Home teams across the country came forward in this crisis to help the families and persons in distress. A glimpse of their effort in this photo-feature.

on most of the people, specially those from the marginalised sections. Jobs and all means of income were lost. Incidentally, all our children belong to such families. Rainbow Home teams across the country came forward in this crisis to help the families and persons in distress. A glimpse of their effort in this photo-feature.



▶ गांधी जयंती पर राशन वितरण कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद के विधायक मृता गोपाल ने भी हिस्सा लिया  
▶ Musheerabad MLA Muta Gopal Participated in Ration Distribution program on the eve of Gandhi Jayanthi in Hyderabad.



▶ बेंगलूर में रेनबो होम में रह रहे बच्चों के नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाती रही  
▶ Regular health check-ups by medical staff were done for the children at Bengaluru Rainbow Homes.



▶ दिल्ली रेनबो होम टीम के एक सदस्य दिल्ली में एक बस्ती में राशन वितरित करते हुए  
▶ A member of Delhi Rainbow Homes Team providing dry ration to a physically challenged lady.

▶ पटना रेनबो होम टीम की एक सदस्य रेखा देवी को उनके घर पर राशन पहुंचाती हुई  
▶ A member of Patna Rainbow Homes Team providing dry ration to Rekha Devi at her home.



▶ कोविड महामारी के दौर में चेन्नई रेनबो होम में हाथों की अच्छे से सफाई के तरीके सीखते हुए बच्चे  
▶ Children learning about hand hygiene during COVID pandemic times at Rainbow Homes in Chennai.



RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी

RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी • रैयनसथी साथी

▶ बेंगलूर में रेनबो होम के बच्चे उपयुक्त शारीरिक दूरी बनाकर पढ़ाई करते हुए  
▶ Studies with proper physical distancing at Bengaluru Rainbow Home.



▶ चेन्नई में रेनबो होम टीम के फील्ड वर्कर्स ओरिएंटेशन मीटिंग करते हुए  
▶ Orientation meeting of field workers of Chennai Rainbow Homes team.



▶ चेन्नई रेनबो होम के बच्चे वीडियो के जरिये कोविड को लेकर बरते जाने वाले एहतियात सीखते हुए  
▶ Children at Chennai Rainbow Home learn through video on following precautions for COVID.



▶ दिल्ली रेनबो होम टीम के एक सदस्य दिल्ली में एक बस्ती में राशन वितरित करते हुए  
▶ A member of Delhi Rainbow Homes Team providing dry ration to a street dweller.



▶ बेंगलूर रेनबो होम टीम के सदस्य जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर राशन वितरित करते हुए  
▶ Bengaluru Rainbow Homes team distributing dry ration to the needy people.



▶ चेन्नई में फील्ड वर्कर्स ने बस्ती में जाकर लोगों से उनकी परेशानियों व जरूरतों के बारे में जाना  
▶ Field workers in Chennai went to bastis to talk to people about their problems and needs.



▶ चेन्नई के परंबूर इलाके में जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराते रेनबो होम के फील्ड वर्कर्स  
▶ Field workers distributing provisions to needy at Arunthayiyar Nagar, Perambur in Chennai.



▶ बेंगलूर में नीड बेस इंडिया स्नेह घर के बच्चे अपनी पेंटिंग्स के साथ  
▶ Students at Need Base India Sneh Ghar in Bengaluru with their drawings.



RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रैयनसथी साथी • गैरयिन्पो सात्थी • रून्बो साधि • रेइनेवो साथी

RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रैयनसथी साथी • गैरयिन्पो सात्थी • रून्बो साधि • रेइनेवो साथी



# REACHING OUT TO PEOPLE FOR TARGETED INTERVENTIONS

A telephonic survey administered with 670 families of children under RHP across 10 cities (Hyderabad, Ananthapur, Kolkata, Pune, Mumbai, Patna, Bangalore, Chennai, Delhi & Ranchi), to capture their present status of living conditions, health conditions, availability of food, occupational characters, incidences of abuse or violence. This survey captures the families' concerns and lists the expectations from Government and others to ease their struggles for survival at this time of crisis.

## Short term Impact of COVID on families: Key findings

### Awareness on coronavirus

Most families had some awareness about the disease and were able recall at least some

of the symptoms and methods of spreading (54 percent), precautionary measures and hygiene (83 percent). However, 17 percentage of families didn't have any information about the disease. Nevertheless, all of them expressed concerns about the safety of their families, especially children, with regards to the outbreak.

### Effects on income and living conditions of the households

The average income of the households before lockdown was Rs.7000 per month. In more than half of the households, only one person was earning income, mostly employed in the unorganized sector. 81 percent of the families reported having lost their means to earn income because of the lockdown. With no income, families had to rely on their savings. However,

many studies have noted that the possibility of saving money while working in an unorganized sector is very dim. This points towards the fact that all of the families had almost nil savings to use during the lockdown period. While the lockdown in the country lasted for 68 days, 57.9 percent of the families mentioned their savings can last only for about 7-14 days while another 21 percent mentioned that it can last for a maximum of 30 days. The phases of unlock was differently planned across the states, with some going into

more number of days under lockdown. Even after unlock there was no guarantee of jobs or possibility of income. Loss of income diminished the basic amenities of these households and had an effect their living conditions. While the families existing conditions of living was by itself not up to the desired standards, the loss of income is expected to only have pushed them towards worse conditions. Families struggled to manage their expenses for food, water, accessing public toilets, and rent.


- ▶ A total of 43 percent of the families lived in rental accommodations. Of these, 79 percent could not pay rent for the months of March and April 2020; 45 percent of these families mentioned that they have a good chance of being evicted if they continue to not pay rent.
- ▶ 11 percent of the sample were living on the streets before the lockdown. But with lock down, number of people living on street drastically dropped to 1 percent. These families had to find alternate accommodations such as moving back to villages, staying with a friend or relative in same city or different cities, moving to

temporary shelter etc.

- ▶ Approximately, 30 percent of the families used public or community toilets and 62 percent used public taps, hand pumps or community wells for drinking water meaning which they had to come in contact with other families during use of these facilities, thereby increasing their risk exposure to the virus even during lockdown
- ▶ Often, it was not possible for these families to follow physical distancing. Adding to this was the fact that while most of the families lived in very small spaces and had to share it with four number of household members on an average. This must have been particularly hard for children with no conducive space for play or study.
- ▶ 29 percent of the families reported spending money for drinking water, on top of other expenses such as food and rent. Similarly, 12 percent of families reported of using pay-and-use toilets which posed additional financial burden to them due to loss of income.
- ▶ When asked how families manage to meet all these expenses during lockdown, 42 percent reported having taken loans from employers, friends or relatives or the local money lender against hefty interest rates; 5.6 percent sold assets such as jewelry; 5.8 percent bought food on credit.

### Effects on access to health and medication

26.5 percent of the families reported having chronic illnesses such as cancer, cardiovascular diseases, diabetes, TB, HIV/AIDS, out of which 78 percent were undergoing some form of medication or



RAINBOW SATHI • ரெனபோ சாதி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி

RAINBOW SATHI • ரெனபோ சாதி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி • ரெயின்போ சாத்தி

treatment before the lockdown. While 32 percent could not afford to continue treatment during lockdown because of lack of income, most reported that their treatment was either delayed or paused in some way. 70 percent of the families reported having medicines for only about a month after which are expected to either pause or stop their treatments. 13 percent of the sample reported disability in some form and 28 percent of the families reported being in an accident (indoors or outdoors) during the lockdown. With the cancellation of public transport, this could have only meant that there were additional barriers in accessing medical help.

**Effects on access to food and nutrition**



With loss of income and deprivation of savings, hunger and starvation became very evident in these families. During the lockdown, about 46 percent of the families reported eating only two meals a day, whereas another 7 percent reported eating only one meal per day. Roughly, 19 percent of the families, at the time of interview reported complete starvation for 2 days or more until receiving supports with food or dry ration. Both central and state governments announced free distribution of provisions through the Public Distribution System (PDS).



Various non-government and volunteer groups also stepped up to provide relief. Overall, 31 percent of the families reported receiving cooked food support whereas 89 percent of the families received dry rations at least once during the lockdown. The pattern of relief provided and the reach it had is as following:

**A. Dry provisions and cooked food as relief:**

- ▶ Of the 89 percent families who received dry provisions as support over two months, 37 percent families, on an average, received from government sources and 64 percent families, on an average received from other sources such as NGOs, volunteer groups etc.
- ▶ 43 percent of the families had no identification documents and 64 percent did not have a ration card or had one in an incorrect address. None of these families were able to receive any support from the PDS.
- ▶ The amount of provisions distributed to each family was expected to last for only about two months on an average. Overall, 45 percent of the families, on an average, received provisions only once in the first two months of the lockdown, whereas, on an average, 25 percent of the families received at least twice.
- ▶ Common items distributed as dry provisions were rice, dal, wheat, sugar and oil indicating that nutritional intake of the families in terms of a well-balanced diet would have taken a hit since the lockdown.
- ▶ 11 percent families did not receive any dry provisions from any sources.

**The top three cause of worry for the families**

**60.5% children's future**

**51% income after the lockdown**

**42.8% getting sufficient food to eat**

- ▶ 31 percent of the families reported receiving cooked meals at least once. Of them, on an average, 11 percent families received cooked meals twice or more days in a week during lock down
- ▶ Even though majority of the families received support in some form, the relief measures were not sufficient to last the entire lockdown as 80 percent families received support in March 2020 but only 50 percent received support in April 2020.

**B. Other supports as relief:**

- ▶ It is also important to note that the majority of the support focused on providing food but ignored additional requirements of the families such as medicines, hand washing liquids or sanitizers, and sanitary pads etc.
- ▶ Only 27 percent of the families reported receiving other supports such as, medicines, cash, clothing, shelter, counselling, and protection from violence.
- ▶ The central and state governments announced schemes in which money would be credited into the beneficiaries' accounts. However, only 39 percent reported receiving such money.

during the lockdown. 9 percent of the women interviewed reported having undergone either emotional or physical abuse or both. Out of this, 69 percent were caused by the spouses and 25 percent were by other relatives in the family. Out of the total 9 percent who reported abuse, 47 percent reported physical abuse and 88 percent reported emotional abuse. While only certain women reported in the interview about being abused, it is quite possible that many women did not want to disclose their experiences of abuse fearing a consequence of disclosing it.

**Concerns and expectations of families**

As the pandemic has put the world in unprecedented times, majority of the families reported being disturbed or worried because of the uncertainties unveiled since the lockdown. 51.9 percent reported having no clear idea on when things would go back to normal, whereas 32.2 percent thought it would take 6 months or more. The top three cause of worry for the families were children's future (60.5 percent); means of income after the lockdown (51 percent) and getting sufficient food to eat (42.8 percent). Accordingly, top 3 expectations of support of the families were food (63.5 percent families); some form of income or job (31.6 percent) and financial assistance from the government (23.1 percent). However, not all was grim for the families as at least 23.2 percent expressed confidence that they would somehow find some form of job after the lockdown and 47.4 percent expressed hope that the government or organizations such as RFI would provide some support to help them stand up on their feet again.


**Effect on violence and abuse in families**

Various reports mentioned increase in domestic violence and abuse



# कोविड का असर

रेनबो हेम प्रोग्राम के तहत आने वाले बच्चों के परिवारों की स्थिति का आकलन



देश के दस शहरों (हैदराबाद, अनंतपुर, कोलकाता, पुणे, मुंबई, पटना, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली व रांची) में रेनबो हेम कार्यक्रम (आरएचपी) के तहत आने वाले 670 बच्चों के परिवारों से एक टेलीफोन सर्वे किया गया ताकि महामारी व लॉकडाउन के बाद के हालात में उनकी जीवन स्थिति, सेहत, भोजन की उपलब्धता, कामकाज के हाल और शोषण व हिंसा की घटनाओं के बारे में विस्तार से जाना जा सके। इस सर्वे से परिवारों की चिंताएं सामने आईं और यह भी पता चला कि संकट के इस दौर में जिस संघर्ष का वे सामना कर रहे हैं, उससे उबरने के लिए मदद पाने में उनकी सरकार व बाकी संस्थाओं से क्या अपेक्षा है।

## परिवारों पर असर: मुख्य निष्कर्ष

### कोरोनावायरस की जानकारी

ज्यादातर परिवारों को बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके कुछ लक्षणों, एहतियाती उपायों व साफ-सफाई के तरीकों के बारे में पता था। हालांकि 17 फीसदी परिवार ऐसे भी थे जिन्हें बीमारी की जानकारी नहीं थी। लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर तो सारे ही चिंतित थे।

### परिवारों की आय और जीवन स्थिति पर असर

लॉकडाउन से पहले इन परिवारों की औसत आय 7000 रुपये प्रति माह थी। आधे से ज्यादा परिवारों में केवल एक ही व्यक्ति कमाऊ था और उसका रोजगार भी असंगठित क्षेत्र में ही था। लेकिन लॉकडाउन के कारण 81 फीसदी परिवारों की आय का जरिया खत्म हो गया। लिहाजा ज्यादातर को अपनी बचत से काम चलाना पड़ा, लेकिन तमाम अध्ययन कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए कोई कायदे की बचत कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। भारत में पूरा लॉकडाउन 68 दिन तक चला जबकि 57.8 फीसदी परिवारों का कहना था कि उनकी बचत महज एक से दो हफ्ते का खर्च चला पाने के लिए ही पर्याप्त थी। 21 फीसदी परिवार ऐसे थे जिनके पास महीने भर का खर्च चलाने लायक बचत थी। यह तो तब था जब लॉकडाउन की अवधि और सख्ती हर राज्य में अलग-अलग थी, और लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद भी काम तुरंत मिलने या आय होने की तो कोई गारंटी नहीं थी।

आय न होने के कारण इन परिवारों की बुनियादी जरूरतों की चोजों पर भी असर पड़ा। पहले ही इनका जीवन स्तर वांछित स्तर से काफी कम था, आय खत्म हो जाने ने तो इन्हें बेहद तंगहाली की तरफ धकेल दिया। परिवारों को किराये, भोजन, पानी और सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल आदि का खर्च जुटाने में भी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा।

► इन परिवारों में से 43 फीसदी किराये की जगहों पर रह रहे थे और उनमें से 79 फीसदी मार्च व अप्रैल के महीनों में किराया देने की स्थिति में नहीं थे। इनमें से भी 45 फीसदी का यह मानना था कि अब उन्होंने किराया न दिया तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाए।

► सैल सर्वे के 11 फीसदी परिवार लॉकडाउन से पहले ही फुटपाथ पर रह रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद फुटपाथ पर पहने वालों की संख्या महज 1 फीसदी रह गई। बाकी सभी को दूसरे ठिकाने खोजने पड़े, गांवों को लौटना पड़ा, दूसरे शहरों में दोस्तों-नातेदारों के यहां जाना पड़ा या अस्थायी आश्रयगृह तलाशने पड़े।

► इन परिवारों में से 30 फीसदी सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल करते थे और 62 फीसदी पीने के पानी के लिए सार्वजनिक नलों, हैंडपंप आदि का इस्तेमाल करते थे। दोनों ही मामलों में उनके लॉकडाउन के दौरान भी दूसरों के संपर्क में आने और संक्रमण का खतरा झेलने की संभावना बहुत ज्यादा थी।

► इन परिवारों के लिए शारीरिक दूरी बनाकर रखना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर परिवार बहुत छोटी जगहों में रहते थे जिसका इस्तेमाल



औसतन परिवार के चार लोग करते थे। जाहिर था कि बच्चों के लिए खेलने या पढ़ने की कोई जगह मिल पाना तो लगभग नामुमकिन था।

► 29 फीसदी परिवारों को भोजन व किराये के अलावा पीने के पानी पर भी धन खर्च करना पड़ रहा था। इसी तरह 12 फीसदी परिवार भुगतान पर शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे एक तो आय का जरिया खत्म हो गया था दूसरी तरफ अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ खड़ा हुआ था।

► जब परिवारों से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान वे खर्च कैसे चला रहे थे तो 42 फीसदी ने बताया कि उन्होंने अपने नियोजकों, दोस्तों, रिश्तेदारों या भरी ब्याज दर पर स्थानीय सूदखोरों से पैसा उधार लिया था। 5.6 फीसदी लोगों को तो जेवरत आदि बेचने की नौबत आ गई थी और 5.8 फीसदी ने उधार पर खाने-पीने का सामान लिया था।

स्वास्थ्य देखरेख व दवाइयों की उपलब्धता पर असर सर्वे में शामिल परिवारों में से 26.5 फीसदी कैंसर, दिल के रोग, डायबिटीज, टीबी, एचआईवी आदि बीमारियों से ग्रस्त थे जिनमें से 78 फीसदी लॉकडाउन से पहले से किसी न किसी तरह का इलाज करा रहे थे। आय चली जाने के कारण उनमें से 32 फीसदी के लिए लॉकडाउन में इलाज करा पाना मुमकिन नहीं रहा। 70 फीसदी परिवार ऐसे थे जिनके पास केवल महीने भर के लिए ही दवाएं बची थीं। जाहिर था कि उसके बाद उनका इलाज रुक जाना तय था। परिवारों में से 13 फीसदी को किसी किस्म की अपंगता थी और 28 फीसदी को लॉकडाउन के दौरान किसी हादसे का शिकार होना पड़ा था। सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद होने के कारण ऐसे में चिकित्सकीय मदद लेने के लिए भी उनपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ही पड़ा होगा।



## Special Cleaning And Preventive Measures

Amid chaos and panic due to the ongoing of pandemics, special cleaning and preventive measures are the main thing to keep us away from the virus by maintaining the home and surrounding neat and clean. Due to the pandemics where many lives have been impacted and we addressed the issues to the children in advance when it started in the other countries. Which much awareness provided to the children, this also helped the children to be at ease and keep them away from stepping out and cautious.

Team who stayed at the home with the children keeps monitoring the cleanliness of the home such as:

► All the rooms and corridors 4 times a day are

clean with cleaning detergents.

- Dustbins are clean every day after throwing the garbage.
- The garbage's are taking care by the watchman throwing whenever it's filled and clean it.
- After the vegetables brought are wash properly and then keep it in a proper place.

We also follow the preventive measures and practice in both the homes Rainbow and Sneh Ghar

- We make sure children bath, wash their clothes on daily basis
- Clothes are sundry
- Children washing their hands regularly and frequently.
- Social distancing practice at least 1meter (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing
- Taught the children to avoid touching their eyes, nose and mouth.
- Warm drinking water being served thrice a day.
- Hot Food are served
- Fruits and drinks mixed with ginger and honey / lemon.
- Vitamin C tablets gave to all the children to help boost their immune system.
- Health is being checked daily for, such as fever, cold, cough and throat pain and other health issues.

# FIGHTING THE NATURE'S FURY

Even when everyone was trying to overcome the effects of the COVID-19 pandemic and subsequent lockdown, Hyderabad had to face another crisis in form of severe floods in month of October 2020 because of unexpectedly heavy rainfall. But as we always lead from the front, Rainbow Homes Programme made all efforts to reach affected families and provide them whatever relief possible.



► हैदराबाद के जिला कल्याण अधिकारी अक्कीश्वर राव ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन बांटने के काम में हिस्सा लिया।  
► Hyderabad District Welfare Officer Akkeshwar Rao garu participated and distributed dry ration kits to the flood effected families.

► लोगों के पास न तो कहीं और जाने की जगह थी और न ही भोजन आदि पाने का कोई जरिया।  
► People had no where to go and no means to get food to survive themselves in time of flood.



► प्रभावित परिवारों के लिए कोविड के समय में बाढ़ राहत पाना बहुत मुश्किल हो गया था।  
► During COVID times, it was very difficult for affected families to get any help.



► बाढ़ का पानी निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों के घर में घुस गया जिससे उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई।  
► Flood water entered houses of families living in low lying areas and made things very difficult for them.



► रेनबो होम टीम ने अपने यहां रहने वाले बच्चों के उन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की जो बाढ़ में फंस गए थे।  
► Rainbow Homes Team tried to reach families of children living in Homes and struck in floods.

RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रॉयनबॉ साथी • गेरयिन्पो सात्थी • रून्बो साथी • रेइनबो साथी

RAINBOW SATHI • रेनबो साथी • रॉयनबॉ साथी • गेरयिन्पो सात्थी • रून्बो साथी • रेइनबो साथी

Delhi

# — THIS CRISIS — TAUGHT US MANY THINGS



अमीना, 19 वर्ष, दिल्ली

**लॉकडाउन में नौकरी छोड़नी पड़ी**  
लॉकडाउन के दौरान हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्नति हॉस्टल में रहते हुए ही मुझे एनआईओएस की क्लास लेनी पड़ी। ऑनलाइन क्लास की वजह से शुरू में तो कुछ विषयों को समझने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर धीरे-धीरे सब मैनेज हो गया।

हमारी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही चलती थी। हमें करियर से जुड़े वीडियो दिखाए जाते थे और ननकी दी इस बारे में काउंसलिंग भी करती थीं। लॉकडाउन की वजह से जॉब से जुड़ी कई दिक्कतें आ रही थीं। फ्यूचर्स टीम इस काम में बच्चों की मदद कर रही थी। नौकरियों की कमी थी और जो मिल भी रही थीं वे बहुत दूर-दूर थी। जैसे कि मुझे भी एक नौकरी मिली लेकिन वह बहुत दूर थी, उसमें तो रोज हॉस्टल से आने-जाने में ही बहुत खर्चा हो जाता। मैंने सर से बात

की तो उन्होंने काम की जगह के पास ही कमरे व खाने-पीने का इंतजाम करा दिया। तब मैं हर हफ्ते अपने ऑफ के दिन हॉस्टल आती थी लेकिन उसमें भी एक बार के आने-जाने में 500 रुपये लग जाते थे। तब मैंने ऑफ पर आना भी बंद कर दिया। फिर जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो तीन महीने बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और हॉस्टल वापस आ गई।

## Had to leave the job because of lockdown

We had to face many problems during lockdown. Online classes were difficult in the beginning but later on things got managed. Jobs were very few. I got a job at a very far away place but commuting was very costly. I then got a room close to my workplace and would come hostel once every week. But, when my salary was not increased, then I left the job after three months.



Rahul Dhanraj  
Delhi

## Kept calm and motivated

The COVID-19 pandemic changed our lives in many ways. I felt its many impacts on my life and I tried to overcome from this. Before the pandemic, I had made many future plans about my career but pandemic toppled everything. Even after passing 12th exams, I found myself demotivated

on what to do next. In that situation, then our home staffs and counsellor took session regularly to motivate me. Due to lockdown I lost my interest in everything which adversely effected my career plans too. I was totally confused. Then our home took individual

sessions and engaged us with guided movies, career counselling and different types of educational talks and additional ways to explore our thoughts and plans about career. The best thing was the mental and emotional support which I received from our home team. Our Futures team coordinator helped me to find a job which further helped me in stabilizing myself. I became punctual about the time cost and management. The financial support coming with the job kept me calm and motivated.

## खुद को शांत बनाए रखा

कोविड महामारी ने हमारी जिंदगियों को कई तरीके से बदल डाला। मुझे भी इसका असर महसूस हुआ और मैंने उससे पार पाने की कोशिश की। मैंने 12वीं पास करने के बाद की कई योजनाएं बनाई थीं लेकिन इस संकट ने सबकुछ उलट-पुलट कर डाला। मैं बहुत हताश और भ्रमित था कि आगे क्या होगा। हर चीज से मेरी रुचि खत्म हो गई। लेकिन फिर रेनबो होम की टीम ने इससे उबरने में मदद दी। मेरे लिए काउंसलिंग के सेशन चलाए गए। कैरियर के बारे में भी बताया गया। मुझे खासा भावनात्मक सहयोग मिला। फ्यूचर्स टीम ने मेरे लिए नौकरी ढूंढने में मदद की। नौकरी मिलने पर स्थिति बदल गई। मेरी दिनचर्या नियमित हो गई। दिमाग में भी स्थिरता आ गई और फिर नौकरी से जो आर्थिक संबल मिला, उसने भी मुझे मुश्किलों से उबरने में मदद दी।



Mohammad  
Parvez, Delhi

## Pandemic was the worst nightmare we had

When lockdown was imposed because of Coronavirus pandemic I went back to my home in Bawana in end of March. At that time, we had limited ration at home as my parents had also not received their salary from the factory where they work as labourers. Barely after two months our ration and all savings were finished. In that critical time, we got support from Rainbow Home team in form of ration which helped us lot. We received another lot of ration after one and half months. That help was so timely, that we couldn't have survived without it. There was no one else, whom we could have asked for help, as all our neighbours were also facing the same crunch. It

was the worst nightmare of our life and we wanted it to pass away soon. Initially everyone thought that it is going to end soon but after two months we came to realised that it will never end. In such a bad time, only the support from Rainbow Homes team kept us motivated. Everyone wishes for this pandemic to end soon so that we can again lead our normal lives. But these times also teach us a lot about humanity and ways to help others.

## महामारी एक डरावना खूबाब था

कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन लग गया तो मैं मार्च के अंत में बवाना में अपने घर चला गया था। उस समय हमारे घर में बहुत कम राशन बचा था। मेरे माता-पिता फैक्ट्री में काम करते थे, वहां से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। थोड़े दिनों में घर में जो बचत थी, वह भी खत्म हो गई। ऐसे नाजुक मौके पर हमें रेनबो होम की टीम से मदद मिली। वहां से राशन मिला। फिर डेढ़ महीने बाद राशन की दूसरी किश्त भी मिल गई। यह मदद इतनी जरूरी थी कि उसके बिना हमारे लिए डर चलाना व पेट भरना मुश्किल हो गया था। चूँकि हमारे पड़ोसी भी इसी तरह के संकट का सामना कर रहे थे, इसलिए हम आस-पड़ोस से भी मदद नहीं मांग सकते थे। यह हमारे जीवन का सबसे खराब दौर था।

## Patna



**Reena**  
11 yrs, 7th std  
Khilkhilahat Aman  
Rainbow Home, Patna

## During Pandemic care is the only mantra

I enjoy living here at the home and I have been taken care of properly by the mother and sisters during these times of pandemic. COVID-19 test was conducted for all of us, which gave us a feeling of safety. We have been briefed about all the precautionary measures and information needed to keep ourselves safe and protective. Necessary care is being taken to provide us with essentials like lemon water (twice in a day), thermometer, oximeter, masks, gloves and hand sanitizer etc. We follow the norms of social distancing. Our rooms are sanitized once a week. Children are kept at safe distance from everyone coming from outside including parents. Even though the outbreak of COVID-19 is becoming more intense, we are continuing our education on various online platforms besides continuing with our dance, songs and soft skill classes. Many people have lost their livelihood during this pandemic and they are unable to sustain for themselves. To support such parents and other people Rainbow Homes teams have provided necessary help in form of ration kits.



## महामारी के दौरान देखभाल ही सबसे बड़ा मंत्र

मुझे होम में रहने में बड़ा मजा आता है और महामारी के दौरान भी यहाँ हमारा पूरा ख्याल रखा गया। हम सभी का कोरोना टेस्ट भी है जिससे हम सभी सुरक्षित महसूस करने लगे। हमें कोविड-19 से बचाव के भी सारी एहतियात व तरीके बताए गए और सारी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गईं जैसे कि दिन में दो बार नींबू पानी, बुखार देखते रहने के लिए थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क, दस्ताने व सैनेटाइजर आदि। हम शारीरिक दूरी बनाए रखने का ख्याल रखते हैं और हमारे कमरे भी सप्ताह में एक बार सैनेटाइज किए जाते हैं। बच्चों को बाहर से होम में आने वाले सारे लोगों से सुरक्षित दूरी पर रखा जाता है, उनके माता-पिता से भी। कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच भी हमारी पढ़ाई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन चलती रही। साथ ही डांस, संगीत व सॉफ्ट स्किल्स की क्लास भी जारी रखी। सारे बच्चों की इसमें दिलचस्पी है। महामारी के दौरान कई लोगों को आय व रोजगार से वंचित होना पड़ा। उनमें से कई लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। रेनबो होम की टीम ने ऐसे कई लोगों को राशन आदि उपलब्ध कराकर मदद पहुंचाई।

## लॉकडाउन ने कई सबक सिखाए

कोविड-19 महामारी ने दुनियाभर में जो लॉकडाउन लगाया पड़ा, उसने हमें हमें बता दिया है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति प्रदूषण में जो कमी आई, ट्रैफिक कम होने के बाहर निकलने के कारण जो अपराध में कमी आई इलाकों में जिस तरह से स्वच्छंद विचरण करने अपने चारों तरफ किस तरह से दोहन व शोषण हम छोड़ा भी ख्याल रखें तो हमारी दुनिया कितनी रही है हमारे स्कूल बंद हो गए और पढ़ाई रुक हमें सीखने में मुश्किलें आनी लगी। दिनचर्या पर गया। बार-बार हाथ धोना, गरम पानी पीना, दिनचर्या का हिस्सा हो गए। हम बगैर इम्तिहान



**Gudiya Kumari**  
7th std  
Gyan Vigyan Rainbow  
Home, Patna

उथल-पुथल मचा दी है लेकिन इसके चलते कई सबक भी अनजाने में सिखा दिए हैं। इसने कितने लापरवाह थे। लॉकडाउन के कारण कारण जो वातावरण शुद्ध हुआ, लोगों के कम और जंगलों से जानवर हमारे आसपास के लगे, उससे हमें यह अहसास हो गया कि हम कर रहे थे और हमें यह इशारा कर दिया कि बेहतर हो सकती है। लेकिन कई चुनौतियां भी गईं। हर चीज ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई। जबरदस्त असर पड़ा और बाहर निकलना रुक ऑनलाइन क्ला में हिस्सा लेना हमारी नई दिए ही अगली कक्षा में पहुंच गए।

## Pandemic has taught us many things

COVID-19 pandemic has created a havoc around the world, but it has also given us many lessons because of the unwanted lockdown. It has taught us that how careless we were towards our nature. Less amount of pollution, pure environment because of less traffic, less crime because of less movement of people out of their homes, carefree wildlife around- this all has shown us that how we were exploiting everything around us and how much better

world can be if we take care of all these things. But there have been many huge challenges. Our school were shut down and our studies stopped. Everything was switched to online mode and we had to face difficulty in learning. Daily routine has been changed drastically and outings have been stopped. Frequent hand washing, drinking hot water and attending online classes were added to our new routines. We got promoted to next class without exams.

## अभिभावकों की बातें

### तसल्ली थी कि बच्चे रेनबो होम में सुरक्षित हैं

मेरी बच्ची ज्ञान विज्ञान रेनबो होम में रहकर पढ़ाई कर रही है। कोरोना महामारी का प्रकोप जब से बढ़ा, तब से हम लोगों का सारा कामकाज बंद है। हमारे पास कोई कायदे का घर भी नहीं था। स्कूल बंद थे, मुहल्ले की सारी दुकानें बंद थी। मेरे पति साफ-सफाई का काम करते थे। लॉकडाउन में सारा काम छूट गया। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। कई बार बिना वजह पुलिस की भी मार खानी पड़ती। लेकिन इस सारी मुश्किल में रेनबो होम की टीम से काफी मदद मिली। हमें इस बात की तसल्ली थी कि बच्चे रेनबो होम में सुरक्षित हैं। हमें रेनबो होम से काफी राशन भी मिला। उसके बिना हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। इसके लिए हम रेनबो टीम के शुक्रगुजार हैं।



**सोनी खातून, पटना**

### Relieved that kids were safe at Rainbow Home

My kid is at Gyan Vigyan Rainbow Home. Because of the Covid-19 pandemic, we were left with no work. We didn't have any proper place to live. Schools were closed and all shops in neighborhood were closed too. My husband had a cleaning work, but that was also gone. We had to face many problems. Many times, police will come and beat us for no reason. Amidst all this, Rainbow Home team helped us a lot. We were also relieved that our kids are safe at Rainbow Home. We also received ration from Home, without it we would not have been able to survive. We are incredibly grateful to Rainbow Home team for that.



Hyderabad

# RELIEF THROUGH SUPPORT

In the crisis caused by the COVID pandemic and resultant lockdown, almost every person was affected. The impact was equally huge in lives of parents of our kids. We received many requests about requirement of ration to survive during lockdown also some need of emotional support to overcome the pandemic stress. ARUN Rainbow home, Lalapet has come forward to distribute ration among all the families of Rainbow Home children. It became possible only through the support received from APPI (Azim Premji Philanthropic Initiatives).

Our teams across the nation are doing their bit and when even during strict lockdown we were distributing ration, then our frontline team of social mobilisers received immense amount of love from parents and their families. Our COVID-19 relief work also included providing cooked food to neighborhood homeless communities as well as distributing old clothes to the temporary shelters. Besides, we also provided many families with second lot of ration as due to long lockdown and complete shutdown of companies and industries, many were still not able to find any means of livelihood. Thus we made sure that no parents or families of our children have to suffer for food during lockdown. We had regular discussions with children and their families in this regard.

**ARUN Rainbow Home, Lalapet, Hyderabad**

कोविड और उसके चलते लॉकडाउन का असर हर इंसान पर पड़ा, हमारे होम के बच्चों के परिवारों पर भी। उन्हें राशन की भी जरूरत थी और भावनात्मक सहारे की भी। लालापेट अरुण रेनबो होम की टीम ने बच्चों के परिवारों में राशन बांटने का जिम्मा



उठाया और इसमें हमें अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव से सहयोग मिला। साथ में हमने आसपड़ोस के इलाके में तैयार खाना और अस्थायी आश्रयगृहों में कपड़े भी बांटे। हमने कोशिश की कि हमारे बच्चों के किसी भी परिवार को मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमें बच्चों के परिवारों से खूब प्यार भी मिला।



## Only help I received

**R**enuka, Latha's mother works as a maid. During the lockdown, like others she had no source of income or livelihood as people were not even allowing maids due to fear of infection. She is a single mother and stays at Hafeespet, Hyderabad. She had to struggle to find food during the pandemic. She said, "Rainbow Home really helped to feed my family. I was able to sustain for one whole month with sufficient groceries. I don't know, what would I have done without this."



रेनबो होम में रहने वाली लता की मां रेणुका हफीसपेट में रहती हैं और घरों में काम करती हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों ने उन्हें घरों में बुलाना बंद कर दिया। उनके पास आय का कोई जरिया नहीं रहा। ऐसे समय में रेनबो होम की टीम ने राशन से मदद की। राशन से पूरा एक महीने का काम घर में चल गया।

## Huge task to support parents

**G**anga is mother of Chamundi. She lives at Shappor in Hyderabad. She also works as a maid in nearby houses but due to COVID her life become terrible, with no source of income. During her hard times Rainbow Home supported her. She said, "I will never forget the help she received. She felt that it was big responsibility for Rainbow Home to support children as well as their parents. It is a huge task." She was extremely grateful to Rainbow Homes as well as APPI.

चांमुंडी की मां गंगा शेप्पोर इलाके में रहती हैं और वह भी आसपास के घरों में काम करती हैं। लेकिन महामारी के चक्कर में उनका काम छूट गया। इस मुश्किल घड़ी में रेनबो होम की टीम से उनका साथ दिया। वे कहती हैं कि बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता का भी ख्याल रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे रेनबो होम की टीम ने बखूबी निभाया। हम समय पर मिली इस मदद को कभी नहीं भूल पाएंगे।

Hyderabad

I GOT COURAGE AND HOPE AT HOME

M. Susheela Intermediate II Year, Medi Bavi Home, Secunderabad



होम में उम्मीद व साहस मिला



रेनबो होम आने से पहले मैं फुटपाथ पर सोती थी। मुझे भीख मांगनी पड़ती थी, पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। जब मेरे माता-पिता की मौत हो गई तो होम से जुड़े कुछ लोगों ने हमें देखा। वे ही हमें होम लेकर आए। हमें यहां देखरेख व सुरक्षा मिली। इससे मुझे हिम्मत व उम्मीद, दोनों मिले। अगर यह नहीं होता तो हम

कभी स्कूल नहीं जा पाते। मेरे भाई भी अमन वेदिका होम में रह रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।

हाल में जब बाढ़ आई तो सड़कों पर काफी पानी भर गया था। हम वहां से कहीं जा भी नहीं सकते थे। हम भूखे भी थे और डरे हुए भी थे। तब मुझे याद आया कि होम की सिस्टर्स ने क्या हिदायत दी थी। मैंने अपनी बहन को बताया और उसने तुरंत होम में फोन करके हालत बताई और पूछा कि क्या वे कोई मदद कर सकते हैं। अगली ही सुबह होम से सिस्टर्स आ गईं और हमारे लिए खाना बनाने का सामान, चावल वगैरह ले आईं। फिर बाद में सरकारी मदद भी आ गई और उन्होंने हर परिवार को दस हजार रुपये की राहत दी। अगर उस समय होम की टीम नहीं आई होती तो हमें फिर से भीख मांगनी पड़ती।

मैं इसके लिए हमेशा होम की शुरुगुजार रहूंगी। मुझे यह सोचकर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं यहां आकर इतनी पढ़ाई कर पाई।

मैं इसके लिए हमेशा होम की शुरुगुजार रहूंगी। मुझे यह सोचकर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं यहां आकर इतनी पढ़ाई कर पाई।



Before coming to Rainbow Home, I used to sleep on the street. I had to beg and was without any proper clothes. Then, some people from the Home saw us on the street after my parents had died. They brought me to the Home. We were provided care and protection. They gave us courage and hope. If not for this, I wouldn't have been able to go to school. My brothers are also being looked after in Aman Vedika Homes, and they are also studying well.

During recent floods, the street was flooded upto our ankles. We were unable to leave the place. We were frightened and hungry. Then I told my sister about what our Home sisters had instructed us. So, she called them told them of our plight and asked if they can help us. Next morning, sisters came and gave us rice and other things for cooking. Then government help also came. They gave 10,000 Rs of grant to each family. If our Home hadn't come to our help we would definitely have gone back to begging. I shall always feel very grateful to the Home for this. I feel proud of having come this far in my studies.

Prayer

ప్రార్థన

ప్రార్థన

God!

Thank you for this beautiful life as part of creation!

WE believe, we wish, to live in friendship and mutual respect with head held high, in courage and self confidence.

We believe, we wish that all human beings, whether men or women, live in equality, and in happiness, whatever their colour, caste, class, religion, region, language or abilities.

We believe that, we wish to strongly oppose divisive forces and ideologies that spread hatred and divide us and support democratic and non-violent actions for justice, humanity, truth and peace, taking injustice done to others as inflicted on us.

WE believe in, we wish to contribute our mite towards, the building of more humane and free world, in good health and joyful learning and spreading knowledge.

God!

We believe in, and wish to join our tiny hands with the multitude of the people in this ages-old divine journey of love.

ईश्वर अल्लाह

हमारी ये दुआ है कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा ना हो जिसे भोजन प्यार सुरक्षा और शिक्षा न मिले और यह भी प्रार्थना है कि हम अपने आस पास सबकी जिंदगी में खुशी की रोशनी भर दे।

ఈశ్వర అల్లా జిలెసన  
నిమ్మల్ని నమ్మెల్లర ప్రార్థన  
ఈ జగత్తినల్ని యావుదే మగు  
ఆకార ప్రీతి, సురక్షతే మత్తు  
శిక్షణదింద వంజితరాగదిరలి  
ఇదు నమ్మ ప్రార్థన  
నమ్మ కాగూ నమ్మ సుత్తముత్తలిన  
ఎల్లర జిలెవనదల్ని సంకూష  
కాగూ ప్రీతియన్ను కరుణిసి.



Newsletter of Rainbow Homes (for private circulation only)

*Open Hearts, Open Gates...*




Rainbow Homes Program - ARUN works with Rainbow Homes (for girls) and Sneh Ghar (for boys) to empower children formerly on the streets to reclaim their childhood by providing Comprehensive Care, Food, Shelter, Health and Education.

*Anna Dhara Campaign*

The Anna Dhara campaign is an attempt to reach out to supporters like you from the civil society to make a difference in the lives of children living in Rainbow Homes and Sneh Ghars located in 45 Govt & Private Schools in 8 states.

- 🕯️ providing minimum of a day's meal for 100 children
- 🕯️ share life nourishing values with children



**Rainbow Homes EMBRACE. EDUCATE. ENABLE.**

Anuradha Konkepudi, Executive Director Email: reach@rainbowhome.in

Rainbow Homes Programme ARUN, 1-1-711/c/1, 1st floor,

Opp. vishnu Residency, Gandhinagar, Hyderabad - 80 Office No: 040-65144656